## GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

### RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 325 TO BE ANSWERED ON 26/03/2018

### BUREAU FOR OUTREACH AND COMMUNICATION

\*325 SHRI HUSAIN DALWAI:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

- (a) whether Government is setting up a Bureau for Outreach and Communication;
- (b) if so, the purpose of the Bureau and the functions it will be required to perform;
- (c) whether an inter-ministerial consultation was carried out before setting up the Bureau, if so, the details thereof and if not, the reasons therefor;
- (d) the details of the structure of this Bureau and number of employees to be hired; and
- (e) the details of the breakup of funds to be allocated for the functioning of the Bureau?

#### ANSWER

## THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING

(SMT. SMRITI ZUBIN IRANI)

(a) to (e): A statement is laid on the Table of the House.

# STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) TO (e) OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 325 FOR ANSWER ON 26.03.2018

- (a) Yes Sir. The three existing Media Units of Ministry of Information and Broadcasting namely, Directorate of Advertisement and Visual Publicity (DAVP), Directorate of Field Publicity (DFP) and Song and Drama Division (S&DD) have been integrated into one Unit called Bureau of Outreach and Communication.
- (b) Integration of the Media Units into Bureau of Outreach and Communication will ensure effective communication campaigns in the region through a 'Unified Command' under the Additional Director General (Region) [ADG (Region)] thereby bringing about synergy in the functioning and 'Standardisation' of content delivery in the campaigns. Integration of erstwhile DAVP, DFP and S&DD would also avoid duplication of efforts for performing similar programs and would ensure better utilization of human resources, and also avoid duplicity of expenditure on establishment cost like rent, license fee, electricity bill etc.
- (c) No Sir, as there was no additional financial implication involved. Moreover, the integration exercise involved re-structuring of the Media Units viz. DAVP, DFP and S&DD already existing under the Ministry.
- (d) The Bureau of Outreach and Communication (BOC) has its Headquarters at Delhi. There are 21 Additional Director Generals- Region [ADGs (Region)] who are the overall in-charge of offices in that Region. A Region consists of Regional Outreach Bureaus (ROBs) and Field Outreach Bureaus (FOBs). There are 23 ROB and 148 FOB across the country. To strengthen BOC at headquarters, an Indian Civil Accounts Service (ICAS) officer of ADG rank has been posted who will also work as Integrated Financial Adviser (IFA). 27 vacant posts of accounts cadre in DAVP (HQ) in the grade of Sr. Accountant/ Accountant have also been encadred in Central Civil Accounts Service (CCAS). Similarly, at ROB level, 21 posts of Sr. Accounts Officer of Civil Accounts Service is proposed to be created on matching-saving basis. These officers will function as DDO for that Region and also act as Integrated Financial Adviser (IFA) for ADG (Region) for greater financial transparency.
- (e) The details of the breakup of funds proposed to be allocated during 2018-19 for the functioning of the Bureau is attached as Annexure.

\*\*\*\*\*

| Fine decides bing   Proceeding   Processing   Processin  | संख्या ५९ - सूचना  | और प्रसारण मंत्रालय |                   |  | MONICATION | COMMUNICATION"                      | BUREAU FOR        |
|---|--------------------|---------------------|-------------------|--|------------|-------------------------------------|-------------------|
| March   Marc  | No.59- Ministry of | Information & Broad | Icastina          |  |            |                                     |                   |
| Marchen   Sease gaptimal   Sease gapti  |                    |                     |                   |  |            |                                     |                   |
| Total Action (Control of Superal State (Control                       | वास्तविक           | बलर भन्नमान         | 97                |  |            |                                     | (हज़ार क्पयों में |
| Notice   17   19   19   19   19   19   19   19  | Actuals            | Budget Estimates    | Revised Estimates |  |            | ul)                                 | housands of Rupe  |
| November   November   Nation   Nation  | 2016-17            | 2017-18             | 2017-18           |  |            |                                     | बजट अनुमान        |
| November   | आयोजना             | भेल्य               |                   |  |            |                                     | Budget Estimates  |
| National Part   National Par  | +                  | un un               |                   |  |            |                                     | 2018-19           |
| Particular aft varie (reg gibby)  |                    |                     |                   | स्चना और प्रचार (मुख्य शीर्ष) (जारी)   | 2220       | 1 Programme 42                      |                   |
| 10   10   10   10   10   10   10   10   |                    |                     |                   | विज्ञापन और प्रचार (लघु शीर्ष)   | 60.101     |                                     |                   |
| Color   Col   |                    |                     |                   | ब्यूरो आफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन   | 90         | 1                                   |                   |
| 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   |                    |                     |                   | अशासानक<br>र   | 06.01      | Establishment                       |                   |
| 10   0   0   0   0   0   0   0   0   0  |                    |                     |                   | वतम  | 06.01.0    |                                     |                   |
| 0         0         0         Contractor         Actual State and Table         Contractor   |                    |                     |                   | मजदूर  | 06.01.0    |                                     | 1294500           |
| 0         0         O statistical statistic         106.01.10         Medical Expenses         43.4           0         0         0         0         0         1.4         1.4         Remit Expenses         3.4           0         0         0         0         0         0         0         1.4         Remit Expenses         3.4           0         0         0         0         0         0         0         1.4         Remit Expenses         3.4           0<   |                    |                     |                   | राज्यापर। मत्ता  | 06.01.0    |                                     | 4500              |
| 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   |                    |                     |                   | विकास अपनार  | 06.01.06   |                                     | 350               |
| 0           | 2)                 |                     |                   | September 11 and 12 and | 06.01.1    |                                     | 13510             |
| 0   0   0   0   |                    |                     | 0                 | स्थायाच्या द्वार   | 06.01.13   |                                     | 34600             |
| 0   0   0   0   0   3   14   2   14    |                    |                     | 200               | पुराया दूर आर कर   | 06.01.14   |                                     | 86450             |
| 0         0         o   first striketing sord         06.01.20         Other Administrative Expenses         2           0  |                    |                     | 0 0               | Total House  | 06.01.16   |                                     | 51690             |
| 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   |                    |                     | 0 0               | गुन्द प्रशासानक व्यय   | 06.01.20   |                                     | 500               |
| 0         0         0 विश्वास और प्रवार         06.0124         P.O.L.           0         0         0 विश्वास और प्रवार         06.0128         Adventising and Publicity         1           0         0         0 विश्वास और प्रवार         06.0128         Adventising and Publicity         4           0         0         0 विश्वास और प्रवार         06.0128         Adventising and Publicity         4           0         0         0 विश्वास और प्रवार         06.0128         Exhibitions         2           0         0         0 विश्वास और प्रवार         06.028         Exhibitions         2           0         0         0 विश्वास और प्रवार         06.028         Adventising and Publicity         2           0         0         0 विश्वास और प्रवार         06.03.26         Adventising and Publicity         2           0         0         0 विश्वास और प्रवार         06.03.26         Adventising and Publicity         2           0         0         0 विश्वास और प्रवार         06.03.26         Adventising and Publicity         2           0         0         0 विश्वास अपर         06.03.26         Adventising and Publicity         1           0         0         0 विश्वास अपर         0 विश्वास अपर         0  | 8                  |                     | 000               | ी भी पन  | 06.01.21   |                                     | 2300              |
| 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   |                    |                     | 0 0               | 3 2111   | 06.01.24   |                                     | 1500              |
| 0         0         0         व्यवसायिक सेवाए         06.01.27         Minor Works           0  |                    |                     | 0 0               | प्राप्त पार प्रवार   | 06.01.26   |                                     | 16000             |
| 0         0         े जन्म मुल्ल सवाप्         06.01.28         Professional Services           0         0         अप्रमीलगं किया         06.01.50         Other Charges           0         0         विज्ञापन और यूर्गुल विज्ञापन और प्रचार         06.02         Advertising and Publicity           0         0         विज्ञापन और प्रचार         06.03         Advertising and Publicity         1           0         0         विज्ञापन और प्रचार         06.04         Radio Spots         1           0         0         विज्ञापन और प्रचार         06.04         Advertising and Publicity         1           0         0         विज्ञापन और प्रचार         06.05         Advertising and Publicity         1           0         0         विज्ञापन और प्रचार         06.05         Advertising and Publicity         1           0         0         विज्ञापन और प्रचार         06.05         Advertising and Publicity         1           0         0         विज्ञापन और प्रचार         06.05         Advertising and Publicity         1           0         0         विज्ञापन और प्रचार         06.05         Advertising and Publicity         1           0         0         विज्ञापन और प्रचार         06.05         Advertising and Publicity   |                    |                     |                   | निव काय  | 06.01.27   |                                     | 800               |
| 0         0         विज्ञापन और प्रचार         06.01.50         Other Chaiges           0         0         विज्ञापन और प्रचार         06.02.26         Exhibitions           0         0         प्रवश्नान और प्रचार         06.02.26         Advertising and Publicity         12           0         0         विज्ञापन और प्रचार         06.03.26         Advertising and Publicity         12           0         0         विज्ञापन और प्रचार         06.04.26         Advertising and Publicity         12           0         0         विज्ञापन और प्रचार         06.04.26         Advertising and Publicity         2           0         0         विज्ञापन और प्रचार         06.04.26         Advertising and Publicity         2           0         0         विज्ञापन और प्रचार         06.04.26         Advertising and Publicity         2           0         0         विज्ञापन और प्रचार         06.05.6         Advertising and Publicity         2           0         0         विज्ञापन और प्रचार         06.06.06         Advertising and Publicity         2           0         0         विज्ञापन अपर         06.06.06         Advertising and Publicity         2           0         0         विज्ञापन अपर         प्रच्ज्ञाप अप <td< td=""><td></td><td></td><td>0 0</td><td>न्यस्तायक सवाए</td><td>06.01.28</td><td></td><td>43100</td></td<>  |                    |                     | 0 0               | न्यस्तायक सवाए   | 06.01.28   |                                     | 43100             |
| 0         0         तिज्ञापन और प्रवास         06.02 E         Advertising and Publicity         2           0         प्रवश्न भीर प्रवास         06.02 E         Advertising and Publicity         1           0         0         विज्ञापन और प्रवास         06.03 B         Display & Classified Advertisements         1           0         0         विज्ञापन और प्रवास         06.03 B         Advertising and Publicity         1           0         0         विज्ञापन और प्रवास         06.05 B         Printed Publicity         2           0         0         विज्ञापन और प्रवास         06.05 B         Advertising and Publicity         2           0         0         विज्ञापन और प्रवास         06.05 B         Advertising and Publicity         2           0         0         विज्ञापन और प्रवास         06.05 B         Advertising and Publicity         1           0         0         विज्ञापन और प्रवास         06.05 B         Advertising and Publicity         1           0         0         विज्ञापन और प्रवास         06.05 B         Advertising and Publicity         1           0         0         विज्ञापन और प्रवास         06.05 B         Advertising and Publicity         1           0         0         विज्ञापन और प्रवास <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>23/Dir.</td> <td>06.01.50</td> <td>Other Charges</td> <td>9100</td>  |                    |                     | 0                 | 23/Dir.  | 06.01.50   | Other Charges                       | 9100              |
| 0         0         प्रस्तान आप अपार         06.02.56         Advertising and Publicity           0         0         प्रस्तान आप अपार         06.03         Display & Classified Advertisements           0         0         प्रिकापन और प्रचार         06.03         Advertising and Publicity           0         0         विनापन और प्रचार         06.04         Radio Spots           0         0         विनापन और प्रचार         06.05         Advertising and Publicity           0         0         विनापन और प्रचार         06.05         Advertising and Publicity           0         0         विनापन और प्रचार         06.05         Advertising and Publicity           0         0         विनापन और प्रचार         06.05         Advertising and Publicity           0         0         विनापन और प्रचार         06.05         Advertising and Publicity           0         0         विनापन और प्रचार         06.05         Advertising and Publicity           0         0         विनापन और प्रचार         06.07         Advertising and Publicity           0         0         विनापन और प्रचार         06.05         Advertising and Publicity           0         0         विनापन और प्रचार         06.05         Advertising and Publicity   |                    |                     | C (1)             |  | 06.02      | Exhibitions                         | 3500              |
| 0         0         विज्ञापन और प्रचार         06.03.26         Advertising and Publicity         1           0         0         विज्ञापन और प्रचार         06.04.26         Advertising and Publicity         1           0         0         विज्ञापन और प्रचार         06.04.26         Advertising and Publicity         1           0         0         विज्ञापन और प्रचार         06.05         Printed Publicity         1           0         0         विज्ञापन और प्रचार         06.06         Distribution Expenses         2           0         0         विज्ञापन और प्रचार         06.06         Advertising and Publicity         1           0         0         विज्ञापन और प्रचार         06.07         Advertising and Publicity         1           0         0         विज्ञापन और प्रचार         06.07         Advertising and Publicity         1           0         0         विज्ञापन और प्रचार         06.07         Advertising and Publicity         06.07           0         0         विज्ञापन और प्रचार         06.96         Advertising and Publicity         06.96           0         0         विज्ञापन और प्रचार         06.96         Advertising and Publicity         06.96           0         0         विज्ञापन और प्रचा   |                    |                     | . Ex              |  | 06.02.26   | Advertising and Publicity           |                   |
| 0         पेडिजायन और प्रचार         06.04         Radio Spots           0         0         विज्ञायन और प्रचार         06.04.28         Advertising and Publicity           0         0         विज्ञायन और प्रचार         06.05         Printed Publicity           0         0         विज्ञायन और प्रचार         06.05         Advertising and Publicity           0         0         विज्ञायन और प्रचार         06.05         Advertising and Publicity           0         0         विज्ञायन और प्रचार         06.05         Advertising and Publicity           0         0         विज्ञायन और प्रचार         06.05         Advertising and Publicity           0         0         विज्ञायन और प्रचार         06.05         Advertising and Publicity           0         0         विज्ञायन और प्रचार         06.96         Swacchta Action Plan (SAP)           0         0         विज्ञायन और प्रचार         06.96         Advertising and Publicity           0         0         विज्ञायन और प्रचार         06.96         Advertising and Publicity           0         0         विज्ञायन और प्रचार         06.96         Advertising and Publicity           0         0         विज्ञायन और प्रचार         06.96         Advertising and Publicity  |                    |                     | 0                 | -  | 06.03      | Display & Classified Advertisements | 20000             |
| 0         0         0         किनायन और प्रवार         06.04.26         Advertising and Publicity           0         0         विनायन और प्रवार         06.05         Printed Publicity           0         0         विनायन और प्रवार         06.05         Advertising and Publicity           0         0         विनायन और प्रवार         06.06         Distribution Expenses           0         0         विनायन और प्रवार         06.06         Advertising and Publicity           0         0         विनायन और प्रवार         06.07         Advertising and Publicity           0         0         विनायन और प्रवार         06.07         Advertising and Publicity           0         0         विनायन और प्रवार         06.96         Swacchta Action Plan (SAP)           0         0         विनायन और प्रवार         06.96         Advertising and Publicity           0         0         विनायन और प्रवार         06.96         Advertising and Publicity           0         0         विनायन और प्रवार         06.96         Advertising and Publicity           0         0         विनायन और प्रवार         06.96         Advertising and Publicity           0         0         विनायन प्रवार         06.96         Advertising and Publicity   |                    |                     | *                 | The state of the s | 06.03.26   | Advertising and Publicity           |                   |
| 0         के नियास अप   |                    |                     |                   | ALL THE  | 06.04      | Radio Spots                         | 120000            |
| 0         0         0         विज्ञापन और प्रचार         06.05         Printed Publicity         2           0         0         विज्ञापन और प्रचार         06.05         Advertising and Publicity         2           0         0         विज्ञापन और प्रचार         06.05         Advertising and Publicity         1           0         0         विज्ञापन और प्रचार         06.07         Advertising and Publicity         1           0         0         विज्ञापन और प्रचार         06.07         Advertising and Publicity         1           0         0         विज्ञापन और प्रचार         06.95         Advertising and Publicity         2           0         0         विज्ञापन और प्रचार         06.95         Advertising and Publicity         2           0         0         विज्ञापन और प्रचार         06.96         Advertising and Publicity         2           0         0         विज्ञापन और प्रचार         06.96         Advertising and Publicity         2           0         0         विज्ञापन और प्रचार         06.96         Advertising and Publicity         2           0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td>शासन आर् प्रचार्</td> <td>06.04.26</td> <td>Advertising and Publicity</td> <td></td>   |                    |                     |                   | शासन आर् प्रचार्   | 06.04.26   | Advertising and Publicity           |                   |
| 0         कि तरण क्या         06.06.26         Advertising and Publicity         2           0         विज्ञापन और प्रचार         06.06         Distribution Expenses         2           0         विज्ञापन और प्रचार         06.06.26         Advertising and Publicity         11           0         विज्ञापन और प्रचार         06.07.26         Advertising and Publicity         11           0         0         विज्ञापन और प्रचार         06.07.26         Advertising and Publicity         11           0         0         विज्ञापन और प्रचार         06.96         Swacchta Action Plan (SAP)         2           0         0         विज्ञापन और प्रचार         06.96         Advertising and Publicity         2           0         0         विज्ञापन और प्रचार         06.96         Advertising and Publicity         2           0         0         विज्ञापन और प्रचार         06.96         Advertising and Publicity         2           0         0         विज्ञापन और प्रचार         06.96         Advertising and Publicity         2           0         0         विज्ञापन और प्रचार         06.96         Advertising and Publicity         2           0         0         विज्ञापन अधिप्रचार         06.96         Advertising and Publicity  |                    | 0                   | <b>c</b> 4        | אַר אַבּוּיִל  | 06.05      | Printed Publicity                   | 2800              |
| 0         वित्रापन और प्रचाय         06.06         Distribution Expenses           0         विज्ञापन और प्रचार         06.06.26         Advertising and Publicity           0         विज्ञापन और प्रचार         06.07.26         Advertising and Publicity           0         विज्ञापन और प्रचार         06.07.26         Advertising and Publicity           0         विज्ञापन और प्रचार         06.96         Swarchta Action Plan (SAP)           0         प्रचन प्रचा भौदिगिका         06.96         Advertising and Publicity           0         विज्ञापन और प्रचार         06.96         Information Technology           0         विज्ञापन च्या         06.99         Information Technology           0         विज्ञापन च्या         06.99.13         Office Expenses   |                    |                     | 0                 | मापन आर प्रचार   | 06.05.26   | Advertising and Publicity           |                   |
| विज्ञापन और प्रचार   06.06.26 Advertising and Publicity   06.07.26 Advertising and Publicity   06.07.26 Advertising and Publicity   06.07.26 Advertising and Publicity   06.96 Swarchta Action Plan (SAP)   06.96.26 Advertising and Publicity   06.96.26 Advertising and Publicity   06.96.26 Advertising and Publicity   06.96.26 Advertising and Publicity   06.96.29 Information Technology   06.99 Informat   |                    | C                   | Ď ď               | तरण ब्यय   | 90.90      | Distribution Expenses               | 20000             |
| 0         विस्तापन और प्रचार         06.07         Outdoor Publicity           0         विज्ञापन और प्रचार         06.07.26         Advertising and Publicity           0         0         विज्ञापन और प्रचार         06.96         Swaechta Action Plan (SAP)           0         0         विज्ञापन और प्रचार         06.96.26         Advertising and Publicity           0         0         विज्ञापन और प्रचार         06.96.26         Advertising and Publicity           0         0         विज्ञापन अधिकिकी         06.96.39         Information Technology           0         0         विज्ञापन उपय         06.99.13         Office Expenses           जोई - ब्यूरी आफ आउटरीय एंड क्रम्यानिकेशन         Total - Burnan of Outcome.   |                    |                     | 0 14              | नापन और प्रचार   | 06.06.26   | Advertising and Dublicity           |                   |
| 0         0         विज्ञापन और प्रचार         06.07.26         Advertising and Publicity           0         0         विज्ञापन और प्रचार         06.96         Swaechta Action Plan (SAP)           0         0         प्रचन्ना भौदिनिकी         06.96.26         Advertising and Publicity           0         0         कायोलय व्यय         06.99.3         Information Technology           जोड़ - ब्यूरी आफ आउदीय एंड क्रम्यानिकेशन         106.99.13         Office Expenses  |                    | C                   |                   | न्य प्रचार   | 20.90      | Outdoor Bushing                     | 10000             |
| स्वरक्षता कार्य योजना (एस ए पी)   06.96   Swacchta Action Plan (SAP)  |                    |                     | 0                 | नापन और प्रचार   | 06.07.26   | Advertising and Partie              |                   |
| 0 विशापन और प्रचार         06.96.26         Advertising and Publicity           0         0 कार्यातय व्यय         06.99         Information Technology           0         0 कार्यातय व्यय         06.99         13 Office Expenses           जोड़ - ब्यूरो आफ आउदरीय एंड क्रम्यानिकेशन         Total - Burran of Outcome.  |                    | 0                   | 4                 | ना (एस ए   | 96.90      | Swacchta Action Plan (SAP)          | 200               |
| 0         प्रचन प्राधीयकी         06.99         Information Technology           0         कार्यालय व्यय         06.99         Information Technology           जीड़ - ब्यूरी आफ आउदरीय एंड क्रम्यालिकेशन         Total - Burran of Outbook   |                    |                     | U Ida             | गपन और प्रचार  | -          | Advertising and Publicity           |                   |
| ान्यातय स्याप्त स्याप्त कम्यानिकेशन (06.99.13 Office Expenses जोड़ - ब्यूरो आफ आउदरीच एंड कम्यानिकेशन (70tal - Birrean of Ottases)  |                    | 0                   | भूव               | ना प्रौद्दाग्रिकी  |            | nformation Technology               | 2000              |
| - ब्यूरो आफ आउटरीच एंड क्रम्यनिकेशन Total - Birran of Oriesast  |                    |                     | 0 कार             | नियं व्यय  | 3          | Office Expenses                     |                   |
| Charles and the second |                    |                     | SE SE             | - ब्यरो आफ आउटरीच  |            |                                     |                   |